

“ इस लेख में भारत के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों की आय बढ़ाए जाने की रणनीतियों और वैकल्पिक उपायों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें गहरे सागर तथा गैर पारपरिक संसाधनों का टिकाऊ विदेहन, मत्स्यन बेड़ों/गियरों के आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकीय उन्नयन द्वारा मत्स्यन क्षमता बढ़ाए जाने, सूचना संचार प्रौद्योगिकीयों (आईसीटी) के प्रयोग करने, समुद्री संवर्धन को गहन बनाने और मत्स्यन मूल्यशृंखला को प्रबल बनाने आदि जैसे कई विकल्पों पर चर्चा की गई है। ”



दोगुनी कृषक आय  
विशेषांक

## कैसे बढ़े मछुआरों की आय

शिनोज पारपुरत्त, ग्रिनसन जोर्ज, आर. नारायणकुमार और एन. अश्वती  
भाकृअनुप-केन्द्रीय समुद्री मातिस्यकी अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआइ), कोच्चि-682018

**भा**रत लगभग 2.025 मिलियन वर्ग कि.मी. के आर्थिक क्षेत्र (ईंजैड) सहित 8,118 कि.मी. की तट रेखा और 0.53 मिलियन वर्ग कि.मी. के महाद्वीपीय क्षेत्र से युक्त संपदा से संपन्न है। वर्ष 1950-51 के दौरान 0.53 मिलियन टन से बहुत कम मत्स्य प्रग्रहण की स्थिति से वर्ष 2016 में 3.63 मीट्रिक टन के प्रग्रहण स्तर पर पहुंचने का सफर इस अवधि में देश ने तय किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पिछले छः दशकों में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। यह प्रगति मत्स्यन बेड़ों के आकार में क्रमिक वृद्धि, मत्स्यन पोतों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन, क्षमतायुक्त मत्स्यन गियरों के प्रयोग मछली प्रग्रहण केन्द्रों के विकास और मूल्य शृंखला के सुदृढ़ीकरण से प्राप्त की जा सकी है। वर्तमान में समुद्री मत्स्य संवर्धन, मछली उत्पादन के प्रमुख स्रोत के रूप में उभर रहा है, यह तटीय निवासियों की आय बढ़ाने तथा रोजगार सुरक्षा का सक्षम उपाय भी है।

### भारत में समुद्री मातिस्यकी

समुद्री मातिस्यकी क्षेत्र भारत के उप महाद्वीप के पूर्व तथा पश्चिम तटों के 3,288 मत्स्यन गांवों के 8.64 लाख मछुआरों परिवारों के करीब 4 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है। मातिस्यकी जनगणना, 2010 के अनुसार तटीय क्षेत्र में रहने वाले लगभग 61.1 प्रतिशत लोगों मत्स्यन एवं इससे जुड़े हुए कार्यों में लगे हुए हैं। इनमें से 38 प्रतिशत सक्रिय मछुआरे हैं। इसमें करीब 7.9 लाख लोग पूर्णकालिक मछुआरे, 1.35 लाख अंशकालिक मछुआरे और 0.64 लाख लोग मछली संततियों के संग्रहण कार्य में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त बहुसंख्यक लोग मत्स्यन से जुड़े हुए अन्य कार्यों जैसे मछली के प्रग्रहण उपरोक्त प्रसंस्करण, यान एवं गियर के निर्माण, अनुरक्षण, मत्स्यन उपकरणों की आपूर्ति, परिवहन एवं संचालन आदि से जुड़े हुए हैं।

### मत्स्यन से आय : एक मूल्यांकन

प्रति ट्रिप के आधार पर हाल ही में किए गए निर्धारण से यह देखा गया कि एकल दिवसीय मत्स्यन से प्राप्त सकल आय तटीय आधार पर यान एवं संभारों के संयोजनों के अनुसार 1,000 से 50,000 रुपये है। इसका मतलब है कि औसत प्रति दल का हिस्सा 120 से 4,500 रुपये के बीच है। बहु दिवसीय मत्स्यन में प्रति दल का हिस्सा 2-5 दिनों के प्रति ट्रिप के लिए 1,200 से 19,000 रुपये के बीच है। इस क्षेत्र में कई और समस्याएं, विशेषतः मोटरीकृत एवं नॉन-मोटरीकृत क्षेत्रों में, जिनकी वजह से जीवन निर्वाह के लिए केवल मामूली आय मिलती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सक्रिय मछुआरों का 67 प्रतिशत हिस्सा अयंत्रीकृत सेक्टर का है और इनमें अधिकांश केवल जीवन निर्वाह के स्तर तक ही आय अर्जन कर पाते हैं। लेकिन ऊपर बताए जाने के अनुसार प्रति ट्रिप से मिलने वाली आय

## चुनौतियां

विविध प्रकार की उपलब्धियों और आशाजनक भविष्य की क्षमता होने पर भी भारत में समुद्री मात्स्यकी का क्षेत्र विविध प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। खुली-पहुंच में संपदाओं के लिए गहन स्पर्धा, बहु-गियर, बहु-प्रजातियां आदि प्रसंगों से अप्रत्यक्ष बेरोजगारी, प्रग्रहण दर में गिरावट, कम उत्पादन, अतिमत्स्यन और शिशु मछलियों की पकड़ जैसे कई समस्याएं व्यापक होने लगी हैं। इसकी वजह से मत्स्य स्टॉक का हास और समुद्री आवास तंत्र का विनाश होता है। इसके अतिरिक्त पिछले आधे दशक से लेकर इस क्षेत्र में ऊर्जा के अधिक उपयोग होने से कार्बन फूटप्रिन्ट का प्रभाव भी होने लगा। हाल ही में, इस तरह की अनिश्चित गहनताओं के नकारात्मक बाहरी कारकों से मत्स्य प्रग्रहण में गिरावट होने लगी है। ये घटक निकट भविष्य में तटीय मछुआरों की सुधेद्यता, विशेषतः लघु और सीमांत मछुआरों की आय और रोजगार सुरक्षा पर खतरे की ओर इशारा करते हैं।

कमाई का केवल एक भाग होता है। एक यंत्रीकृत मत्स्यन नाव के सही मत्स्यन दिवस की सालाना संख्या बंद मौसम, बेमौसम, नाव एवं संभार के अनुरक्षण की अवधि, धार्मिक छुट्टियों के दिनों को छोड़कर सामान्य तौर पर 200 से 250 दिवस है। नॉन-मोटरीकृत पोतों के लिए भी अधिकतम मत्स्यन दिवस 250-280 तक सीमित है। अतः मछुआरे की प्रति दिन औसत आय ऊपर दिए गए आकलन से काफी कम है। अन्य कई सेक्टरों से विभिन्न, मछुआरों को अपने दैनिक जीवन में कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। तटीय प्रांतों में रहने वाले मछुआरों

के पास उत्पादनशील संपत्तियां जैसे भूमि, पशु धन आदि नहीं हैं। अतः अधिकांश मछुआरे आय के लिए वैकल्पिक अवसरों के बिना, लगातार आय के लिए संघर्ष करने वाले हैं। अतः मछुआरों के सीमित तटीय वातावरण के अंदर उनकी आजीविका बढ़ाए जाने लायक वैकल्पिक उपायों को ढूँढ़ना उचित होगा।

### मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए वैकल्पिक उपाय


#### अप्रयुक्त संसाधनों का दोहन

भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईंजेड) का अभी पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सका है। टूटना, बैराकुडा, रेइनबो रनर, बिलफिश, पेलाजिक सुरा जैसे बड़ी मछलियों और अधिक व्यावसायिक महत्व वाली महासागरीय स्किवड के लक्षित विदेहन से मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की महासागरीय और इससे जुड़ी हुई प्रजातियों की संभावित प्राप्ति 2.08 टन आकलित की गयी है। इन संपदाओं के टिकाऊ प्रग्रहण किए जाने से मछुआरों की आय बढ़ायी जा सकती है। इस दिशा में कुछ उपाय यहां दिए जा रहे हैं; (i) गहरे सागरीय मत्स्यन पोतों के विकास एवं परिनियोजन के लिए सरकार की सहायता सुनिश्चित करना (ii) गहरे सागर के मत्स्यन तरीकों और तकनीकों के बारे में प्रत्याशित उद्यमियों और मछुआरों को प्रशिक्षण देना (iii) गहरे सागर की संपदाओं और शक्य लाभार्थी समूहों के प्रग्रहण की रूपरेखा और दृष्टिकोण पर प्रकाश डालने लायक राष्ट्रीय मत्स्यन नीति तैयार करना और (iv) इस तरह विकसित

गहरे सागर मत्स्यन बेड़ों के लिए संचालन नीति और विपणन समर्थन विकसित करना।

#### मत्स्यन बेड़ों की क्षमता बढ़ाना

उचित प्रकार के परिवर्तन और उन्नयन के माध्यम से वर्तमान मत्स्यन बेड़ों की क्षमता बढ़ाने और आधुनिक यान और गियरों



बेड़े में हरा शब्द पालन

का उपयोग करने से समुद्र में लाभदायक एवं उत्तरदायित्वपूर्ण मात्स्यकी संभव है। भाकृअनुप-सीआइएफटी द्वारा विकसित कम लागत के ईंधन क्षमतायुक्त तथा सौर ऊर्जा से परिचालित मत्स्यन पोतों के उपयोग और आधुनिक मत्स्यन गियरों जैसे किशोर मछली को अलग करने से युक्त और कट एवं टोप बेल्ली चिंगट आनायक के उपयोग से मछुआरे निवेश का कुशल उपयोग कर सकते हैं और लागत भी कम कर सकते हैं। इन प्रौद्योगिकियों से किशोर मत्स्यन और उप-पकड़ कम किए जा सकते हैं। विभिन्न तटीय क्षेत्रों में इन प्रौद्योगिकियों की अनुकूलता पर जांच की जानी है और सफल प्रौद्योगिकियों का उचित उपायों के माध्यम से प्रचार किया जाना आवश्यक है।

#### समुद्री संवर्धन

समुद्री संवर्धन के समुद्र में नियंत्रित वातावरण में समुद्री जीवों के पालन से मछली की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने पर आधारित है। इस दिशा में कुछ आशाजनक विकल्प हैं; समुद्री पिंजरों में मछली पालन, समुद्री शैवाल का उत्पादन, एकीकृत बहु पौष्टिकता जलजीव पालन (आईएमटीए), शब्द और शुक्ति पालन, अलंकरित मछली उत्पादन और मोती उत्पादन आदि।

#### खुले समुद्र पिंजरा मछली पालन

खुले समुद्र की उच्च मूल्य वाली मछली प्रजातियों के पालन द्वारा आय बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना एक अच्छा विकल्प कहा जा सकता है। खुले समुद्र में पिंजरा मछली पालन से सीएमएफआरआई ने कोबिया, पोम्पानो, ग्रूपर, समुद्री बास आदि व्यावसायिक मछलियों का समुद्री पिंजरों में पालन करने की तकनीक विकसित करने और प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने में काफी सफलता हासिल की है। संस्थान द्वारा देशीय तौर पर दो तरह के पिंजरे विकसित किए



समुद्री मछली पालन पिंजरे का दृश्य

गए हैं। एक पालन अवधि के दौरान 6 मीटर के व्यास के पिंजरे में औसत 2-4 टन मछली का पालन और उत्पादन किया जा सकता है। पालन की जाने वाली मछली प्रजाति के अनुसार प्रति मत्स्य पालन से प्राप्त सकल आय 1.5 लाख रुपये से 4 लाख रुपये तक है। भारत के कई समुद्रवर्ती राज्यों में प्रदर्शन करने के बाद पिंजरा मछली पालन को देश के कई भागों में आशाजनक प्रचार मिल रहा है। तटीय क्षेत्रों के कई मछुआरा समूह और विकास एजेन्सियां निकट भविष्य में पिंजरा मछली पालन करने के लिए आगे आए हैं।

### समुद्री शैवाल उत्पादन

समुद्री शैवाल मानव आहार या खाद्य योजकों में प्रसंस्करण के लिए उपयोग किए जाने वाले एगार और कैरागीनन जैसे हाइड्रोकोलोइडों का पालतू भोजन, खाद्यों, उर्वरकों, जैव ईंधन, सौंदर्यवर्द्धक सामग्रियों और औषधों में प्रयोग किया जाता है। काप्पाफाइक्स और युकीमा जैसी लाल शैवाल प्रजातियां लगभग 20 से

अधिक देशों में उत्पादित की जाती है। बहुत ही सरल प्रौद्योगिकी और कम निवेश से इसका उत्पादन किया जा सकता है और सीमांत तटीय लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में यह सक्षम भी है।

इस परिवेश में और एक अवधारणा सीएमएफआरआई द्वारा प्रारंभ किया गया एकीकृत

बहु-पौष्टिक जलजीव पालन (आईएचटीए) है, जिसमें समुद्री शैवाल पैदावार के साथ उचित अनुपात में पख मछलियों/चिंगट और शाकाहारी मछलियों का पालन किया जाता है। आईएचटीए द्वारा समुद्री पिंजरा मछली पालन से होने वाले नकारात्मक बाहरी कारकों का शमन करने और समुद्री शैवाल की बेहतर प्राप्ति की जा सकती है। इस तकनीक से



बेड़ों में समुद्री शैवाल का उत्पादन

प्रति पैदावार चक्र के दौरान समुद्री शैवाल की प्राप्ति 110 कि.ग्रा. तक होती है और इससे आय में भी वृद्धि होती है। पाक उपसागर क्षेत्र में लगभग 100 मछुआरों ने यह प्रौद्योगिकी अपनाई है।

### समुद्री संवर्धन में अन्य आशाजनक उद्यम

शंबु और शुक्ति की उच्च लाभप्रदता की वजह से केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बैकवाटर में इनका पालन क्रमिक रूप से प्रचलित हो रहा है। शंबु और शुक्ति पालन के लिए स्टेक पालन, ऑन-बोटम पालन, लंबी डोर पालन, बेड़ा पालन, रैक में पालन आदि जैसे कई तरीके अपनाए जाते हैं। इस क्षेत्र में बेड़ा तरीके के हरा शंबु पालन के बीज रोपित 200 रस्सियों के प्रति एकक से करीब 88,000 रुपये की आय प्राप्त की जा सकती है। इस दिशा में एक और आशाजनक उद्यम है अलंकारिक मछली पालन और मोती उत्पादन, जिनके लिए अब प्रौद्योगिकी में सुधार लाया गया है।

### समुद्री मछली मूल्य शृंखला का समग्र विकास

कृषि एवं इससे जुड़े हुए क्षेत्र में खेती प्रबंधन में लाभकारिता सुनिश्चित करने में मूल्य शृंखला की प्रमुख भूमिका है। समुद्री मात्स्यकी के क्षेत्र में मूल्य संवर्द्धन विकास के हस्तक्षेपों की व्यापक शृंखला प्रारंभ की जा सकती है। इनके द्वारा मछली तथा मात्स्यकी उत्पाद अच्छी गुणता के साथ उपभोक्ता तक पहुंच जाते हैं। मत्स्यन नावों में हिमशीतीकरण की आधुनिक सुविधाएं तथा मूल्य शृंखला के मुख्य घटकों जैसे रीफर, लघु रीटेल आउटलेट, वाहन, लघु पैमाने के मछली व्यवहार तथा प्रसंस्करण एकक आदि की सुविधाएं होनी चाहिए। विषयन की गयी मछली की गुणवत्ता का नियंत्रण इस दिशा में जरूरी ध्यान देने की आवश्यकता होने वाली प्रमुख समस्या है।

## अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आईसीटी के उपयोग से प्रग्रहण में वृद्धि

भारत में मत्स्यन की क्षमता बढ़ाई जाने हेतु आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों, विशेषतः अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार मछुआरों की आय बढ़ायी जा सकती है। इस तरह का एक आशाजनक हस्तक्षेप है शक्य मत्स्यन क्षेत्र (पीएफजेड) परामर्श का विस्तार। आईएनसीओआईएस, हैदराबाद और टाटा परामर्श सेवा (टीसीएस) की सहभागिता से महाराष्ट्र के मछुआरों के लिए विकसित पोर्टल m@krishi इस परिवेश में कहने लायक एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सीएमएफआरआई द्वारा महाराष्ट्र तट पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार यह पता चला है कि m@krishi सेवा का उपयोग करने पर मछली के प्रग्रहण में 30-40 प्रतिशत का वर्धन और ईंधन की लागत में 30 प्रतिशत की बचत की जा सकती। अंडमान और निकोबार द्वीपों में हाल ही में चुने गए यानों के बारे में किए गए और एक अध्ययन से यह व्यक्त हुआ कि पीएफजेड परामर्श स्वीकार करने पर मत्स्यन के राजस्व में 40-50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

### सारणी 1. भारत में मात्स्यकी के उप-क्षेत्रों का अवलोकन

विवरण	यंत्रीकृत	मोटरीकृत	गैर-मोटरीकृत
गियर के मुख्य प्रकार	आनाय जाल, गिल जाल, कोश संपाश, कांटा डोर	बलय संपाश, कोश संपाश, नाव संपाश, कांटा डोर, डोल जाल, ड्रिफ्ट जाल, लंबी डोर	कांटा डोर, पॉल एंड लाइन, बैग जाल, लंबी डोर
कुल मत्स्य प्रग्रहण में योगदान (प्रतिशत) (2010)	82	17	1
मत्स्यन यानों की संख्या (2010)	72,559	71,313	50,618
इन्वेन्टरी का आकलित मूल्य (करोड़ में) (2015)	20,810 (92 प्रतिशत)	1,498 (7 प्रतिशत)	354 (1 प्रतिशत)
लगे हुए सक्रिय मछुआरों की संख्या (लाखों में) (2010)	3.27 (33 प्रतिशत)	6.14 (62 प्रतिशत)	0.49 (5 प्रतिशत)

स्रोत: पशु पालन, डेयरी और मात्स्यकी विभाग, भारत सरकार (2012) (भाकृअनुप-सीएमएफआरआई वार्षिक प्रतिवेदन (2016))